



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30—जनवरी 5, 2007 (पौष 9, 1928)

No. 52]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30—JANUARY 5, 2007 (PAUSA 9, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखी जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधित्त नियमों, अधिनियमों, अध्यादेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पठ (ऐसे पार्तों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
1045		
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, हट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
1307		
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	
13		
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, हट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	
1915		
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	
*		
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	
*		
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	
*		
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की दर्शाने वाला सम्पूर्ण	
*		
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं		
*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	Page No. 1045	PART II—SECTION. 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	Page No. *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1307	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	13	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3793
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1915	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	933
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	13191
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	787
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2006

संकल्प

सं. ई-11015/9/2003-हिंदी--इस मंत्रालय के दिनांक 18.3.2005 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जेसुदास सीलम, संसद सदस्य (राज्य सभा) को प्रो. एम. एम. अग्रवाल, संसद सदस्य (राज्य सभा), जिनका दिनांक 14.8.2006 को निधन हो गया था, के स्थान पर इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त किया जाता है। श्री जेसुदास सीलम का कार्यकाल वर्तमान समिति के कार्यकाल तक रहेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, समिति के सभी सदस्यों और सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रवीर कुमार
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

सं. एफ.9-64/2005-यू. 3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट सिरुसेरी, चेन्नई (तमिलनाडु) को एतद्वारा अस्थायी रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिये उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नई श्रेणी के तहत उपरोक्त इंस्टीट्यूट के मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु और बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, सम विश्वविद्यालय, पिलानी, राजस्थान से असम्बद्ध होने की तारीख से सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। यह दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की वार्षिक समीक्षा के शर्ताधीन होगा। पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त यू.जी.सी. पुनरीक्षा समिति की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के आधार पर इस इंस्टीट्यूट को स्थायी रूप से सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा।

(2) यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 18th December 2006

RESOLUTION

No. E.11015/4/2005-Hindi—In partial modification of this Ministry's resolution of even number dated 18.3.2005 Shri Jesudasu Seelam M.P. (Rajya Sabha) is nominated as non-official member of the Hindi Advisory Committee of this Ministry in place of Prof. M. M. Agrawal M.P. (Rajya Sabha), who expired on 14.8.2006. The tenure of Shri Jesudasu Seelam would be till the tenure of the present committee.

Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the President's Secretariat, the Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, all the Ministries and Departments of the Government of India, Office of the Comptroller and Auditor General of India, all the Members of the Samiti and all State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRAVIR KUMAR
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 15th December 2006

No. F.9-64/2005-U.3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare the Chennai Mathematical Institute, Siruseri, Chennai (Tamil Nadu) as 'Deemed to be University', under *de novo* category, for the purpose of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years from the date the Institute disaffiliates itself from the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal, the University of Madras, Chennai, Tamil Nadu and the Birla Institute of Technology and Science, Deemed-to-be-University, Pilani, Rajasthan, subject to annual review by an Expert Committee of the UGC. After the period of five years, the status of 'Deemed to be University' conferred upon the Institute shall be confirmed on the basis of performance report of the Review Committee UGC to be appointed by the University Grants Commission (UGC).

2. This declaration is subject to the conditions mentioned at Sl. No. 4 of the endorsement of this notification.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.